

परिशिष्ट



Prof.K.K.Khare
Head,DE & Dean

Dated: 04/02/18

To

Principal,
Govt. Naveen
H.S.S. Arera Colony, Bhopal.

Subject: Permission to allow M.Ed. students for data collection from your school
Sir.

Regional Institute of Education, (NCERT) Bhopal is one of the premier teacher education Institute under Ministry of Human Resource & Development, Govt. of India. The Institute offer M.Ed.programme for the entire Western Region covering the States of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat, Goa, Daman & Diu of India. The bearer of the letter with passport photograph affixed at the top is a bonafide student of M.Ed course of RIE, Bhopal. He is required to complete a dissertation as partial fulfillment of the M.Ed degree. This is to request you to kindly permit Mr./Ms. Vijaya Jhotekar to collect the data from your school/institution. The data collected will be kept confidential and shall not be used for any purpose other than dissertation work

① शा. महारानी लक्ष्मी वाई
उ. मा. विद्यालय बरखेडा
ई - रोड भोपाल

② महात्मा गांधी शा. उ. मा.
विद्यालय बरखेडा भेल
भोपाल

Office of the Principal
Govt. Naveen H.S. School
Arera Colony, Bhopal

③ नवीन शा. उ.
मा. विद्यालय
ई - 5 भोपाल

(K.K.Khare)

नैतिक मूल्य - परीक्षण

एल. एन. दुबे

विद्या भारतीय प्रकाशन
(Revised 2009)

नाम आयु

महाविद्यालय / विद्यालय कक्षा

अभिभावक का व्यवसाय

परिवार की आर्थिक - सामाजिक स्थिति उत्तम मध्यम सामान्य

निर्देश

इस परीक्षण में कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं। प्रत्येक परिस्थिति में व्यवहार के तीन विकल्प दिये गये हैं। आप इन परिस्थितियों में जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे उसकी कल्पना कर आपको प्रत्येक तीन विकल्पों में से कोई एक उत्तर का चुनाव करना है। चुने हुए विकल्प के सामने वाले खाने में आप सही का निशान लगा दीजिए।

इस मापनी को भरने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है परन्तु आप शीघ्र से शीघ्र इसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। आपके उत्तर गोपनीय रखे जायेंगे इसलिए आप निःसंकोच होकर उत्तर दीजिए।

वितरक

अनुसंधान केन्द्र, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

- 1.1 अपने मित्र के बचाव में थोड़ा झूठ बोलने की आवश्यकता आ जाने पर -
- 1 झूठ बोलकर उसे बचा लेंगे।
 - 2 सब बातें सत्य ही बतायेंगे।
 - 3 गोल-मोल बातें बताकर इस प्रकरण से अपने आपको दूर रखेंगे।
- 2.2 समूह खेल में रूढ़ि के विरुद्ध स्थान पर खेलने हेतु कहे जाने पर -
- 1 उस स्थान पर खेलने की असमर्थता बता देंगे।
 - 2 स्थान परिवर्तन के लिये बाध्य करेंगे।
 - 3 निर्देशानुसार उस स्थान पर खेलेंगे।
- 3.3 किसी संस्था में महत्वपूर्ण स्थान मिलने पर-
- 1 अपने सहयोगियों की सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे।
 - 2 अपनी सुख सुविधा के सब साधन जुटा लेंगे।
 - 3 दूसरों के हित में कार्य करेंगे।
- 4.4 दूसरे के द्वारा भूलवश अचानक चोट लग जाने पर-
- 1 उसे भला बुरा कहेंगे।
 - 2 मुस्कराकर उसकी गलती को टाल देंगे।
 - 3 उसे ऐसा न करने के लिये उपदेश देंगे।
- 5.1 कठिन परिश्रम के बाद भी पर्याप्त पारिश्रमिक न मिलने पर-
- 1 भविष्य में पारिश्रमिक के अनुरूप ही कार्य करेंगे।
 - 2 अनुचित साधनों से धन कमायेंगे।
 - 3 प्राप्त पारिश्रमिक से संतोष कर लेंगे।
- 6.2 समिति में महत्वहीन पद मिलने पर-
- 1 पद स्वीकार नहीं करेंगे।
 - 2 पद स्वीकार कर अपनी योग्यतानुसार अनुकूल कार्य करेंगे।
 - 3 पद स्वीकार करते हुए भी कोई कार्य नहीं करेंगे।

7.3 पड़ोसी के अचानक बीमार हो जाने पर -

1 शीघ्र उसे अस्पताल पहुंचावेंगे।

2 व्यक्तिगत मामले में नहीं पड़ेंगे।

3 अन्य पड़ोसियों से उसकी सहायता करने के लिये कहेंगे।

8.4 किसी समारोह में आमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचने के कारण उचित स्थान न मिलने पर -

1 वापिस लौट आयेगें।

2 कहीं भी रिक्त स्थान देख कर बैठ जायेंगे।

3 व्यवस्थापक से उचित स्थान देने का आग्रह करेंगे।

9.1 दूसरे के द्वारा आपको अपराधी बताने पर -

1 अपने आपको निरापराधी होने का प्रमाण देंगे।

2 उससे बदला लेने का प्रयास करेंगे।

3 उस स्थान को ही छोड़ देंगे।

10.2 एक आवश्यक किन्तु जोखिम पूर्ण कार्य दिये जाने पर -

1 उस कार्य को टाल देंगे।

2 दूसरे से कार्य करवाने का प्रयत्न करेंगे।

3 स्वयं कार्य को पूरा करेंगे।

11.3 आवश्यक कार्य से जाते समय मार्ग में किसी असहाय व्यक्ति को देखकर -

1 उसकी यथा संभव सहायता करेंगे।

2 आवश्यक कार्य होने के कारण चले जायेंगे।

3 दूसरों से सहायता के लिये कहकर चले जायेंगे।

12.4 किसी कार्यक्रम में मित्रों से भिन्न राय होने पर -

1 अपनी बात मनवाने का हठ करेंगे।

2 उनका साथ छोड़ देंगे।

3 उनकी राय से सहमत हो जायेंगे।

13.1 किसी व्यक्ति की सदिग्ध गतिविधियाँ देखकर

- 1 उससे दूर ही रहेंगे।
- 2 इस बात की सूचना अधिकारियों को देंगे।
- 3 उसे ऐसा काम न करने को कहेंगे।

14.2 अन्य आवश्यक कार्य आने पर पूर्व में निर्धारित कार्य

- 1 छोड़ देंगे।
- 2 समय पर करेंगे।
- 3 विलंब से करेंगे।

15.3 किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपरिचित महिला से छेड़छाड़ करता देखकर

- 1 इस झमेले में नहीं पड़ेंगे।
- 2 दूसरों से बचावके लिए कहेंगे।
- 3 महिला को सुरक्षित पहुँचा देंगे।

16.4 दूसरे के द्वारा किसी बात पर हस्तक्षेप करने पर

- 1 उनकी राय को स्वीकार कर लेंगे।
- 2 उनकी बातों की उपेक्षा कर अपना काम करते रहेंगे।
- 3 उनसे बहस करेंगे।

17.1 पुलिस अधिकारी के रूप में अपने किसी सबधी की अपराध की जानकारी होने पर

- 1 उसे बचाने का प्रयास करेंगे।
- 2 उसे सजा दिलायेंगे।
- 3 उसे ऐसा न करने को कहेंगे।

18.2 महत्वपूर्ण कार्य कम समय में करने के लिए दिये जाने पर

- 1 अधिक परिश्रम कर समय पर कार्य पूरा करेंगे।
- 2 कार्य को स्वीकार ही नहीं करेंगे।
- 3 अधिक समय में कार्य पूरा करेंगे।

19.3 किसी पशु को असहाय अवस्था में देखकर -

- 1 उसकी सहायता करेंगे।
- 2 उसके मालिक को भला बुरा कहेंगे।
- 3 अपना काम से चले जायेंगे।

20.4 टिकिट की खिड़की पर लंबी कतार देखकर -

- 1 किसी प्रकार आगे जाकर ले लेंगे।
- 2 कतार में खड़े होकर ही टिकिट लेंगे।
- 3 आगे खड़े किसी व्यक्ति से टिकिट लेने को कहेंगे।

21.1 असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी दिये जाने पर न्यायालय में

- 1 सभी बातें सचसच बतायेंगे।
- 2 भय के कारण कुछ भी नहीं बतायेंगे।
- 3 अस्पष्ट बातें बतायेंगे।

22.2 कठिन एवं साधन रहित कार्य दिये जाने पर -

- 1 साधनों की मांग करेंगे।
- 2 कार्य पूरा करने में अपनी असमर्थता बता देंगे।
- 3 स्वयं साधन जुटाकर कार्य पूरा करेंगे।

23.3 पिकनिक पर जाते समय मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त कार को देखकर -

- 1 कार के लोगों की सहायता करेंगे।
- 2 दूसरों को सहायता करने के लिये कहेंगे।
- 3 व्यर्थ की झंझट में नहीं पड़कर पिकनिक पर चले जायेंगे।

24.4 यात्री बस में एक महिला को खड़ी देखकर -

- 1 दूसरे व्यक्तियों से स्थान देने के लिए कहेंगे।
- 2 उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे।
- 3 स्वयं अपने स्थान पर महिला से बैठने को कहेंगे।

25.1 किसी प्रतियोगिता में आपके निर्णायक होने पर अपने परिचित के उसी प्रतियोगिता में भाग लेने पर-

- 1- उसे अधिक अंक देंगे।
- 2- योग्यता के अनुसार ही अंक देंगे।
- 3- उस प्रतियोगिता के निर्णायक पद से अलग हो जायेंगे।

26.2 निश्चित किये गये कार्यक्रम में बाधाएँ आने पर -

- 1- कार्यक्रम को स्थगित कर देंगे।
- 2- कार्यक्रम पूरा करेंगे।
- 3- दूसरा कार्यक्रम बना लेंगे।

27.3 उड़ने में असमर्थ पक्षी के बच्चे को देखकर -

- 1- उसे अपने घर ले जायेंगे।
- 2- उसे वहीं पड़ा रहने देंगे।
- 3- उसे पेड़ पर उसके घोंसले के पास बैठा देंगे।

28.4 किसी खेल में हार जाने पर -

- 1- हार के लिये निर्णायक की आलोचना करेंगे।
- 2- विजयी प्रतिद्वंदी के कौशल की प्रशंसा करेंगे।
- 3- हार के लिये अपने साथियों को भला बुरा कहेंगे।

29.1 उच्च पद प्राप्त करने के लिए-

- 1- अपने परिश्रम से प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।
- 2- दूसरों की सिफारिश से प्राप्त करेंगे।
- 3- अनुचित साधनों का उपयोग कर प्राप्त करेंगे।

30.2 किसी संस्था का सदस्य बनने पर-

- 1- नियमित रूप से उपस्थिति रहेंगे।
- 2- विशेष महत्व का कार्य होने पर ही जायेंगे।
- 3- कभी कभी जायेंगे।

31.3 दो लड़कों को लड़ता हुआ देखकर -

- 1 कमजोर की ओर से लड़ने लगेंगे।
- 2 दोनों को समझकर अलग कर देंगे।
- 3 उनके व्यक्तिगत झगड़े में नहीं पड़ेगें।

32.4 किसी कार्य में अनावश्यक सुझाव दिये जाने पर-

- 1 उनके सुझाव को ध्यानपूर्वक सुन लेंगे।
- 2 उनकी बात को अनावश्यक समझकर उपेक्षा करेंगे।
- 3 उनसे बहस करेंगे।

33.1 अधिकांश मित्रों के द्वारा बिना टिकिट यात्रा करने के लिये प्रेरित करने पर-

- 1 उनके साथ बिना टिकिट यात्रा करेंगे।
- 2 टिकिट लेकर ही यात्रा करेंगे।
- 3 उनका साथ छोड़ देंगे।

34.2 किसी कार्य में सहयोगी के कार्य छोड़ देने पर-

- 1 स्वयं भी उस कार्य को छोड़ देंगे।
- 2 अकेले ही उस कार्य को पूरा करेंगे।
- 3 अन्य सहयोगी के आने पर ही कार्य करेंगे।

35.3 किसी अपरिचित व्यक्ति के बचाव के लिये चिल्लाने पर-

- 1 अनावश्यक जोखिम में नहीं पड़ेंगे।
- 2 अन्य व्यक्तियों को सहायता के लिये बुलायेंगे।
- 3 यथा शक्ति उसकी सहायता करेंगे।

36.4 किसी चुनाव में हार जाने पर-

- 1 प्रत्येक कार्य से अपने आपको अलग रखेंगे।
- 2 प्रत्येक कार्य में विजयी व्यक्ति को बाधा पहुंचायेगे।
- 3 प्रत्येक कार्य में यथा शक्ति सहयोग देंगे।

37.1 कुछ व्यक्तियों को अनुचित साधनों का उपयोग करता देखकर -

- 1 वैसा ही करेंगे।
- 2 अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेंगे।
- 3 दूसरों व्यक्तियों को ऐसा करने से रोकेगें।

38.2 अपनी योग्यता से अधिक कठिन कार्य दिये जाने पर -

- 1 बिगड़ जाने के डर से उस कार्य को स्वीकार ही नहीं करेंगे।
- 2 स्वीकार करने के बाद उस कार्य को अधूरा करके छोड़ देंगे।
- 3 अपनी योग्यतानुसार उस कार्य को पूरा करेंगे।

39.3 बच्चों को मेंढकों को पत्थर मारता देखकर -

- 1 उन्हें ऐसा न करने के लिये समझायेगें।
- 2 उनका खेल समझकर बाधा नहीं पहुंचायेगें।
- 3 स्वयं बच्चों के साथ मेंढक को मारने का आनंद उठायेगें।

40.4 आपस में धार्मिक चर्चा होने पर -

- 1 दूसरों के धर्म का भी आदर करेंगे।
- 2 सभी अन्य धर्मों की आलोचना करेंगे।
- 3 दूसरों के धर्म की अपेक्षा अपने धर्म को श्रेष्ठ बतायेगें।

41.1 किसी खेल समूह का कैप्टन बनने पर -

- 1 अपने मित्रों को खेल में वरीयता देंगे।
- 2 चुनाव का कार्य दूसरे पर छोड़ देंगे।
- 3 योग्यता के अनुसार ही चुनाव करेंगे।

42.2 समूह में किसी बात पर मतभेद हो जाने पर -

- 1 समूह का साथ छोड़ देंगे।
- 2 समूह को पूर्ण सहयोग देंगे।
- 3 समूह में रहते हुए भी कोई कार्य नहीं करेंगे।

43.3 बाढ़ग्रस्त पीड़ितों की सहायताार्थ (2)

- 1 शासन को उचित सहायता के लिये लिखेंगे
- 2 बाढ़ के कारणों की जांच के लिये आंदोलन चलायेगा और तब तक बाढ़ के उपशान्त सामर्थ्य के अनुसार सहायता करेगा।

44.4 सार्वजनिक स्थान पर लिखे निर्देशों की

- 1 उपेक्षा करेगा।
- 2 पूर्णतः पालन करेगा।
- 3 जैसा दूसरे करेगा वैसा ही करेगा।

45.1 एक इनाम घोषित अपराधी के पकड़े जाने की संभावना पर घोषित इनाम से दनी राशि अपराधी द्वारा दिये जाने के आश्वासन पर

- 1 उसे छोड़ देगा।
- 2 अधिकारियों को सूचित करेगा।
- 3 इस मामले में नहीं पड़ेगा।

46.2 अधिकारी द्वारा अनुभवहीन कार्य दिये जाने पर

- 1 उस कार्य को किसी और को देने के लिये तैयार होकर उसे कार्यवाही करेगा।
- 2 अपनी असमर्थता बता देगा।
- 3 उस कार्य को सामर्थ्य के अनुसार करेगा।

47.3 किसी गरीब असहाय बालक को देखकर

- 1 उसके मा-बाप को भला बुरा कहेगा।
- 2 उसकी यथा संभव सहायता करेगा।
- 3 पूर्व जन्म के पापों का दंड समझ उसे उसका हाल पर ध्यान देगा।

48.4 बड़ों के द्वारा किसी कार्य को न करने के लिये रोकने पर

- 1 उनसे अपना कार्य अच्छा बताने के लिये बहस करेगा।
- 2 उनकी बात पर न ध्यान देकर अपना कार्य करन रहेगा।
- 3 उसकी बात सहर्ष मान लेगा।

49.1 कार्यालय में प्रायः सभी लोग विलंब से जाते हैं इसलिए आप भी -

- 1 विलंब से आयेगे ।
- 2 दूसरों की चिन्ता न कर निर्धारित समय पर जायेंगे ।
- 3 कभी विलंब से और कभी ठीक समय पर जायेंगे ।

50.2 किसी स्थान पर पहुंचने का वचन देने के बाद कोई कठिनाई आने पर -

- 1 कठिनाई समाप्त होने के बाद ही पहुंचेंगे ।
- 2 अपना पहुंचने का कार्यक्रम बदल देंगे ।
- 3 निश्चित समय पर ही उस स्थान पर पहुंचेंगे ।

51.3 पड़ोस के मकान में आग लग जाने पर -

- 1 बचाव के लिये शोर मचायेंगे ।
- 2 कुछ लोगों की सहायता से बचाव कार्य में लग जायेंगे ।
- 3 अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थान में चले जायेंगे ।

52.4 किसी सामूहिक भोज में स्थान की कमी होने पर -

- 1 वहां से लौट जायेंगे ।
- 2 मेजवालों की अलोचना करेंगे ।
- 3 स्वयं स्थान मिलने पर भोजन करेंगे ।

53.1 नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनोगे -

- 1 धनवान बनना ।
- 2 ईमानदार व्यक्ति होना ।
- 3 अधिकार युक्त पद पर पदाशीन होना ।

54.2 सहयोगी का कार्य व्यवहार पसंद न आने पर -

- 1 उस सहयोगी का साथ छोड़ देंगे ।
- 2 उस कार्य को ही छोड़ देंगे ।
- 3 अपना कार्य पूर्ण लगन से करते रहेंगे ।

55.3 मार्ग में किसी अंधे व्यक्ति से अचानक टकराने पर -

- 1 कोई महत्व न देकर अपने काम से चले जायेंगे।
- 2 उसकी सहायता कर उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचायेगें।
- 3 उसे भला बुरा कहेंगें।

56.4 दूसरे के द्वारा अपनी गलती निकालने पर -

- 1 उस पर कोई ध्यान नहीं देंगें।
- 2 उससे क्रोधित हो जायेंगें।
- 3 सद्भावना से अपनी गलती स्वीकार कर लेंगें।

57.1 किसी परीक्षा में एक निश्चित समय में प्रश्न पूरा करने दिये जाने पर परीक्षक की अनुपस्थिति में -

- 1 अधिक समय में पूरा करेंगें।
- 2 निर्धारित समय में ही उत्तर पुस्तिका दे देंगें।
- 3 अन्य छात्रों को अधिक समय लिखता देखकर वैसा ही करेंगें।

58.2 किसी कार्य को समाप्त करने के तुरंत बाद अन्य दूसरा कार्य दिये जाने पर-

- 1 पूर्ण विश्राम कर उस कार्य को करेंगें।
- 2 उत्साहपूर्वक उस कार्य को करेंगें।
- 3 उस कार्य को करने में अपनी असमर्थता बतायेंगें।

59.3 डूबते हुए लड़के को बचाव के लिए चिल्लाता देखकर-

- 1 उसे बचाने के लिए दूसरों को पुकारेंगें।
- 2 उसके अभिभावकों को सूचित करेंगें।
- 3 स्वयं बचाने के लिये भरसक प्रयास करेंगें।

60.4 किसी अन्य जाति के सामाजिक समारोह में भाग लेने पर-

- 1 विभिन्न प्रकार के सुधार का सुझाव देंगें।
- 2 उन्हे रीतिरिवाजों की बुराईयां समझायेंगें।
- 3 बिना कोई आलोचना किये सामान्य रूप से भाग लेंगें।

Consumable Booklet

of

B A I

R. K. Ojha (Moradabad)

(Hindi Version)

कृपया निम्न सूचनाएँ भरिए :

नाम (Name) कक्षा (Class)

लिंग (Sex) आयु (Age)

पिता का व्यवसाय (Father's Occupation)

मासिक आय (Monthly Income) शिक्षा (Education)

निर्देश

यदि आप ईमानदारी और लगन के साथ इस परीक्षण में दिए हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समुचित रूप में देंगे तो हम आपको यह बता सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व पूर्णतः समायोजित है या कोई कमी है। यदि आप अपने माता-पिता के साथ नहीं रह रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप उन व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए दीजिए जिनके साथ आप रह रहे हैं।

इस परीक्षण के चार भाग हैं। प्रत्येक भाग में 35 प्रश्न दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने दो विकल्प 'हाँ' (Yes) तथा 'नहीं' (No) दिए हैं। यदि आप प्रश्न का उत्तर 'हाँ' में देना चाहते हैं अर्थात् प्रश्न में दी गई बातों से आप सहमत हैं तो 'हाँ' के नीचे वाले खाने में गुणा (x) का चिन्ह लगावें। यदि आपका उत्तर नकारात्मक है अर्थात् प्रश्न में दी गई बातों से आप असहमत हैं तो 'नहीं' के नीचे वाले खाने में गुणा (x) का चिन्ह लगावें। यद्यपि समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, किन्तु सभी प्रश्नों के उत्तर शीघ्र देने का प्रयत्न कीजिए।

फलांकन तालिका (Scoring Table)

क्षेत्र →	I	II	III	IV	Total
प्राप्तांक (Scores) →					
विवेचना (Interpretation) →					

Estd. 1983

☎(0522) 380082

ANKUR PSYCHOLOGICAL AGENCY

22/481, INDIRA NAGAR, LUCKNOW - 226 016

क्रम सं.	कथन	हाँ (Yes)	नहीं (No)
----------	-----	--------------	--------------

भाग I

गृह (Home)

1. क्या आपके मस्तिष्क में कभी ऐसा दृढ़ विचार आया था कि आप घर छोड़कर भाग जायें ?
2. क्या आप इस बात की अनुभूति करते हैं कि आपके माता-पिता आपसे असन्तुष्ट हैं ?
3. आपके पिताजी घर का खर्च चलाने के लिए जिन कार्यों को करते हैं क्या उनसे आप दुःखित हैं ?
4. आपके परिवार में क्या आपकी माताजी का आधिपत्य है ?
5. क्या आपके माता-पिता में से किसी एक ने कभी आपकी व्यर्थ निन्दा की है ?
6. क्या आप यह सोचते हैं कि आपके घर में वास्तविक प्रेम नहीं है ?
7. पिताजी के साथ क्या आपके सम्बन्ध सदा अच्छे रहते हैं ?
8. क्या आपके माता-पिता आपकी बातों पर ध्यान न देकर अपनी आज्ञापालन करने पर बल देते हैं ?
9. आपका घरेलू जीवन दुःखमय होने के कारण क्या आपके यहाँ किसी को बीमारी या मृत्यु हुई है ?
10. क्या धनाभाव के कारण आपको अपना घर दुःखमय लगता है ?
11. आपके चरित्र पर क्या कभी आपके माता-पिता ने कोई सन्देह किया है ?
12. जिस तरह के मित्रों के साथ आप रहते हैं क्या आपके माता-पिता ऐसे लोगों के साथ रहने से आपको मना करते हैं ?
13. क्या आपकी माताजी या आपके पिताजी में से कोई शीघ्र चिड़चिड़ा जाता है ?
14. घर में कार्य किस तरह होना चाहिए इसके बारे में क्या आप अपने माता-पिता से अधिकतर असहमत रहते हैं ?
15. क्या आपके सम्बन्धियों में पारिवारिक झगड़े प्रायः हुआ करते हैं ?
16. क्या आप अपने भाई-बहनों से अधिकतर झगड़ा करते रहते हैं ?
17. क्या आपके माता-पिता आपको बच्चा समझते हैं और यह नहीं सोचते कि अब आप बड़े हो गये हैं ?
18. क्या आप यह अनुभव करते हैं कि आपके माता-पिता आप पर नाजायज सख्ती करते हैं ?
19. क्या आपके माता-पिता में से किसी एक में कोई विशेष आदत है जिससे आप चिढ़ते हैं ?

क्रम सं.	कथन	हाँ (Yes)	नहीं (No)
20.	क्या आप अपनी माताजी को पिताजी से अधिक प्यार करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	परिवार में शान्ति रखने के लिये क्या आपको घर छोड़ना पड़ता है या चुप रहना पड़ता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	क्या आपके माता-पिता में से किसी एक ने किसी विशेष कार्य के लिये आपके मस्तिष्क में बहुत भय पैदा कर दिया है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	समयानुसार क्या आप परिवार के सदस्यों पर कभी क्रोधित और कभी प्रसन्न होते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	क्या आपकी माताजी आपको बहुत प्यार करती रही हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	क्या आपकी माताजी या आपके पिताजी कोई भी शीघ्र क्रोधित होने वाले हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	क्या आपके घर में आवश्यकता की वस्तुएँ विद्यमान रहती हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	आपके पिताजी के जीवन के आदर्श क्या आपके आदर्शों से मिलते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	आपके निजी रूप एवं रंग के बारे में क्या आपके माता-पिता ने कभी आपको चिढ़ाया है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	क्या आपके माता-पिता के विचार आपसे में नहीं मिलते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	10 से 15 वर्ष की अवस्था के मध्य क्या आपके माता-पिता आपको बहुधा मारते थे ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31.	अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में क्या आप अपने माता-पिता के विचारों से सहमत नहीं हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	आपके माता-पिता में क्या कोई उत्तेजक प्रवृत्ति का है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	क्या आपकी माताजी या आपके पिताजी आपको कड़े नियंत्रण में रखते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि आपके माता-पिता आपको नहीं समझ पाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं कि आपके मित्रों का पारिवारिक जीवन आपसे सुखद है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

भाग II

स्वास्थ्य (Health)

- | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | क्या आप अन्य लोगों से शीघ्रता से डर जाते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | क्या आपकी आँखें तीव्र प्रकाश सहन नहीं कर पातीं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | क्या आप दमा या मलेरिया इत्यादि के रोगी हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | क्या बचपन में कभी आपको कण्ठ-रोग (Diphtheria) या तेज बुखार हुआ था ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

क्रम सं.	कथन	हाँ (Yes)	नहीं (No)
5.	क्या आप सिर-दर्द से हमेशा पीड़ित रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	घर में जब किसी तरह का शोर होता है तब क्या आपको नींद आने में कोई कठिनाई होती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	दिन के समाप्त होने पर क्या आप प्रायः अधिक थकावट का अनुभव करते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	क्या इन दिनों आपका शारीरिक भार कुछ कम हुआ है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	कभी किसी दुर्घटना में क्या आपको कोई सख्त चोट लगी है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	क्या कभी आपका सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	क्या आपको ठण्ड बहुत लगती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	क्या आप अधिकतर इन्फ्लूएन्जा से पीड़ित हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	पिछले दस वर्षों में क्या कभी आप बहुत बीमार पड़े थे ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	क्या आपको गैस की बीमारी है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	क्या आपको चक्कर आते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	क्या आपकी आँखें अधिकतर दर्द करती हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	सबेरे सोकर जब आप उठते हैं तो क्या आपको थकावट महसूस होती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	क्या आप बहुधा दवाइयाँ खाते रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	क्या आप अधिकतर थके हुए से रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	क्या आपको अपच का रोग होता रहता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	क्या आपका गला प्रायः खराब हो जाया करता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	क्या आपको प्रायः उल्टी या दस्त इत्यादि की बीमारी रहती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	क्या आप कब्ज से अधिक परेशान रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	क्या अपने बचपन में आप बहुत बीमार रहे हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	क्या आपको रात में साँस लेने में कठिनाई होती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	क्या कभी आपके सिर में बहुत तेज दर्द हो जाता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	क्या आपका शारीरिक वजन औसतन कम है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	प्रायः भूख लगने से पहले क्या आप भोजन कर लेते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	क्या आप चश्मा पहनते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	क्या आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक समझते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	बीमारी के कारण क्या आप बहुधा विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	क्या आपके दाँत ऐसे हैं जिनकी दवाई कराना आप आवश्यक समझते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

क्रम सं.	कथन	हाँ (Yes)	नहीं (No)
----------	-----	--------------	--------------

- | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 33. | क्या आपके हृदय में, फेफड़ों में या गुर्दे (किडनी) में कोई तकलीफ है ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34. | क्या आपको कभी कोई चर्मरोग हुआ था ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35. | ठण्ड से छुटकारा पाने में क्या आप परेशान होते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

भाग III

सामाजिक (Social)

- | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | क्या आप केवल लोगों से मिलने के लिए ही सामाजिक भीड़ों में आनन्द लेते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | किसी स्वागत समारोह में भाग लेते समय क्या आप मुख्य-अतिथि से मिलना चाहते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | क्या ऐसे समारोहों में भाग लेते समय आप लोगों को परिचय कराने का उत्तरदायित्व लेते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | समूह में वार्तालाप करते समय क्या आप उपयुक्त उत्तर देने में कठिनाई अनुभव करते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | क्या आपने कभी किसी दल का नेतृत्व किया है ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | क्या किसी सभा में सब लोगों के बैठ जाने के बाद पहुँचने में आप हिचकते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | क्या आप अपनी कक्षा में सबके सामने भाषण कर सकते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | रेलगाड़ी या मोटरगाड़ी से यात्रा करते समय क्या आप अपने साथ के यात्रियों के साथ वार्तालाप करते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | क्या दूसरों से सहायता माँगना आपको सुगम लगता है ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | क्या अपनी लज्जा के कारण आप परेशान होते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | जनसमुदाय में वार्तालाप छेड़ने में क्या आप आनन्द लेते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | क्या आप योजना बनाने तथा लोगों के कार्यों को निर्देशित करने का अनुभव रखते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | किसी नवीन परिचित व्यक्ति से वार्तालाप करने में क्या आप कठिनाई का अनुभव करते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | सही उत्तर याद होने पर भी क्या आप कक्षा में उत्तर देने से अपने को असमर्थ पाते हैं ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | भिन्न लिंग वाले व्यक्तियों से मित्रता करना क्या आपको सुगम लगता है ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. | यदि आपको कोई प्रीति-भोज दिया जाता है तो उसमें आप दूसरों से अपने लिए कार्य कराने — जगह क्या दूसरों के लिए कार्य करना चाहेंगे ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

क्रम सं.	कथन	हाँ (Yes)	नहीं (No)
17.	क्या आपको सभाओं में भाषण करने का अनुभव है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	लोगों के सामने भाषण करने में क्या आपको कठिनाई होती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	सामाजिक नृत्यों में क्या आप अधिक आनन्द लेते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	यदि आप किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई चीज लेना चाहते हैं तो उसे दूसरे व्यक्ति से या पत्र द्वारा मँगवाने की अपेक्षा स्वयं जाकर माँग लेंगे ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	जिन व्यक्तियों की आप अधिक प्रशंसा करते हैं और उनसे पूर्णतया परिचित नहीं हैं क्या उनके साथ रहने में आप आत्म-सम्मान का अनुभव करेंगे ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	क्या आप कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम के नेता बने हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	क्या आप कभी किसी व्यक्ति विशेष से आँख बचाने के लिए सड़क से इधर-उधर हो लेते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	यदि आप किसी सभा में देर से आते हैं तो आगे बैठने की अपेक्षा खड़े रहना या लौट जाना ठीक समझेंगे ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	क्या आप तत्परता से मित्र बना लेते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	किसी पार्टी में क्या आप अग्रचालक हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	अधिक लोगों से जान पहचान रखने की अपेक्षा क्या आप कुछ विशेष व्यक्तियों से ही हार्दिक मित्रता रखना चाहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	यदि आप लोगों का कोई विशेष दल छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी दशा में आज्ञा लेने में क्या आप घबड़ाहट अनुभव करेंगे ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	सामाजिक उत्सवों में क्या आप पीछे रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	यदि कोई अध्यापक आपको अचानक बुला ले तो क्या आप एकदम घबड़ा जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	किसी अजनबी के साथ बातचीत करना क्या आपको कठिन लगता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	क्या आप मेले तथा भीड़ में भाग लेने में आनन्दित होते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	क्या में किसी विषय पर भाषण करने में क्या आप आत्म-गौरव समझते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	क्या आप कक्षा में भाषण करने में हिचकते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	यदि किसी कमरे में कुछ व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो अन्दर जाने में क्या आप हिचकते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

क्रम सं.	कथन	हाँ (Yes)	नहीं (No)
----------	-----	--------------	--------------

भाग IV

संवेगात्मक (Emotional)

1. क्या आप दिवा-स्वप्न अधिकतर देखते हैं ?
2. किसी रोग के बारे में डाक्टर से जाँच कराना क्या आपको डरा देता है ?
3. क्या आप कभी-कभी अज्ञात कारणों से दुःखित हो जाते हैं ?
4. क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति आपको मोहित कर ले और आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सकें ?
5. जनसमूह में रहने पर क्या आप अपने को अकेला अनुभव करते हैं ?
6. दिन के समाप्त होने पर क्या आप थकावट महसूस करते हैं ?
7. भूचाल या आग का विचार क्या आपको डरा देता है ?
8. क्या आपकी आँखों में आँसू जल्दी आजाते हैं ?
9. क्या आप साँप को देखकर डर जाते हैं ?
10. आपका कोई अपराध न होने पर भी क्या आप दोषी बनाये जाते हैं ?
11. क्या आपको चमक डरा देती है ?
12. परीक्षाओं में कम अंक प्राप्त करने के कारण क्या आप बार-बार हतोत्साहित हो जाते हैं ?
13. दूसरों को खुशी देखकर क्या आप ईर्ष्या करते हैं ?
14. क्या आप बहुत आसानी से हिम्मत हार जाते हैं ?
15. क्या आप अपने कर्मों पर अधिकतर दुःखित होते हैं ?
16. क्या आप कभी ऊँचे पहाड़ पर चढ़ने के बाद डर गए थे कि आप कहीं नीचे न गिर जायें ?
17. क्या आप शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं ?
18. क्या आप अधिकतर दुःखित रहते हैं ?
19. क्या आप निम्नता की भावना से परेशान होते हैं ?
20. क्या आप अपने को शक्तिशाली समझते हैं ?
21. क्या आप आसानी से लज्जित हो जाते हैं ?

क्रम सं.	कथन	हाँ (Yes)	नहीं (No)
22.	क्या कभी आपका मन किसी बात से परेशान होता है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	क्या आपकी भावनाओं को किसी बात से ठेस लगती है ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	क्या आप सम्भावित विपत्तियों से परेशान हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	क्या आप कभी इस बात से चिन्तित होते हैं कि कहीं लोग आपके विचारों को न पढ़ लें ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	क्या आपके मस्तिष्क में कभी ऐसा विचार आता है कि लोग सड़क पर आपकी चौकसी कर रहे हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	क्या अपनी शिकायतें सुनकर आप बहुत परेशान हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	क्या आप अधिकतर उत्तेजित हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	क्या आपके दिमाग में कभी-कभी बेकार के विचार आते हैं और आप उनसे दुःखित होते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	क्या आप जल्दी ही अश्रमन्त हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	क्या आप अपनी दीनता के अनुभवों से बहुत अधिक दुःखित हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	यह जानते हुए भी कि अमुक व्यक्ति आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पायेगा, क्या आप उससे अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	बिना किसी विशेष कारण के क्या आप कभी खुश और कभी दुःखित होते रहते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	आपके दिमाग में क्या कभी ऐसा विचार आता है कि आप सो नहीं पाते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	क्या आप अँधेरे में अकेले रहने से डरते हैं ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>